



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1931 (श0)
(सं0 पटना 479) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2009

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

11 सितम्बर 2009

सं0 9/आ0-09-18/2006-865(9)-स्वा0—स्वास्थ्य विभागीय संशोधित संकल्प संख्या 378(9), दिनांक 24 मार्च 2008 के द्वारा डा0 रत्नेश्वर सिंह, तत्कालीन उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, पूर्णियां सम्प्रति जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, भागलपुर के विरुद्ध रोगियों से अनाधिकृत रूप से अवैध राशि वसूल करने इत्यादि के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं डा0 सिंह द्वारा दिये गये कारण पृच्छा पर समीक्षोपरान्त उन्हें निम्नलिखित सजा दी जाती है:—

1. निन्दन।
 2. चार वेतनवृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से रोक।
 3. निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।
- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गोपी कान्त झा,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 479-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>